

सभी के लिए टीकाकरण

Moderna COVID-19 टीके (18 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए)

Pfizer COVID-19 टीके (6 महीने से 17 वर्ष की आयु के लोगों के लिए)

- + पहली और दूसरी खुराकें
- + प्रतिरक्षाविहीन लोगों के लिए अतिरिक्त प्राथमिक श्रृंखला खुराकें
- + बूस्टर जिनमें अद्यतन बाईवैलेंट बूस्टर शामिल हैं

जो पात्र हैं उन सभी के लिए यहाँ उपलब्ध हैं

COVID-19 के कारण, खुद को और अपने प्रियजनों को बीमार होने से बचाना अभी भी महत्वपूर्ण है।

COVID-19 टीके सुरक्षित और बीमारी, अस्पताल में भर्ती होने और यहाँ तक कि मृत्यु के जोखिम को कम करने में अत्यधिक प्रभावी हैं।

आप COVID-19 टीका बिना किसी खर्च के लगवा सकते हैं।



आपके लिए कौनसा टीका उचित है, इस बारे में अधिक जानें।

QR कोड स्कैन करें या **1-844-NYC-4NYC**

(1-844-692-4692) पर कॉल करें।

COVID-19 टीका

अधिकांश व्यक्ति अब **COVID-19** टीका लगवाने के लिए पात्र हैं:

- + 6 महीने से 4 वर्ष की आयु के लोग Pfizer-BioNTech की तीन बाल चिकित्सा खुराकें (क्षमता का दसवां हिस्सा) लगवा सकते हैं
- + 5 से 11 वर्ष की आयु के लोग Pfizer-BioNTech की दो बाल चिकित्सा खुराकें (क्षमता का तीसरा हिस्सा) लगवा सकते हैं
- + 12 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोग Pfizer-BioNTech की दो खुराकें लगवा सकते हैं
- + 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोग Moderna की दो खुराकें लगवा सकते हैं

Pfizer और Moderna की अतिरिक्त प्राथमिक श्रृंखला खुराकें

mRNA टीके की अतिरिक्त प्राथमिक श्रृंखला खुराकों के लिए उन लोगों को वरीयता दी जाती है, जिनकी प्रतिरक्षा प्रणाली किसी स्थिति या उपचार के कारण कमजोर हो चुकी है।

मधुमेह, हृदय या फेफड़ों की बीमारी जैसी अन्य चिकित्सीय स्थितियों वाले अधिकांश लोगों के लिए अतिरिक्त प्राथमिक श्रृंखला खुराकों की सिफारिश नहीं की जाती है।

COVID-19 बूस्टर खुराक - Pfizer और Moderna टीका लगवाने वाले

5 से 11 वर्ष की आयु के बच्चे, जिन्हें इससे पूर्व पाँच महीने से ज़्यादा समय पहले Pfizer प्राथमिक श्रृंखला लगाई गई थी, वे केवल Pfizer मोनोवैलेंट बूस्टर के लिए पात्र हैं।

12 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए, अद्यतन बाइवैलेंट बूस्टर ही एकमात्र अधिकृत बूस्टर है। 12 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों को अब मूल मोनोवैलेंट बूस्टर नहीं लग सकता।

12 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों को उनकी प्राथमिक COVID-19 टीकाकरण श्रृंखला या अंतिम बूस्टर के कम से कम दो महीने बाद अद्यतन बाइवैलेंट बूस्टर की एक खुराक लगानी चाहिए।

हो सकता है कि टीका लगाए गए लोगों को वही टीका लगे जो उन्हें शुरू में उनकी प्राथमिक टीकाकरण श्रृंखला में या बूस्टर के पहले लगा था या वे अन्य दो प्रकारों के टीकों में से किसी भी एक को चुन सकते हैं।